

This question paper contains 4 printed pages]

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. No. of Question Paper : 7790

Unique Paper Code : 6133390053

Name of the Paper : Basics of GST

Name of the Course : B.A. (Vocational Studies) SME

Semester : VIII (NEP)

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any five questions.

All questions carry equal marks.

Use of a simple calculator is allowed.

किन्हीं भी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

साधारण कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति है।

P.T.O.

1. Discuss the provisions relating to registration under GST with reference to Section 22 and Section 24. Highlight cases where registration is compulsory.

GST के तहत रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधानों पर, धारा 22 और धारा 24 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। उन मामलों को उजागर करें जहाँ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

2. Explain how GST has eliminated the cascading effect of taxation in India. Also discuss the role, structure, and functions of the GST Council.

समझाइए कि GST ने भारत में कराधान के कैस्केडिंग प्रभाव (cascading effect) को कैसे समाप्त किया है ? साथ ही, GST परिषद की भूमिका, संरचना और कार्यों पर भी चर्चा कीजिए।

3. Distinguish between credit note and debit note. Explain their role in adjusting tax liability with suitable examples.

क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कर देयता के समायोजन में उनकी भूमिका समझाइए।

4. Explain the difference between Composite Supply and Mixed Supply with suitable examples. Discuss their tax implications.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ कम्पोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के बीच का अंतर समझाइए। उनके कर प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

5. Discuss the provisions relating to Time of Supply under GST for :

(a) Goods and services under forward charge

(b) Goods and services under reverse charge.

GST के तहत 'सप्लाई के समय' (Time of Supply) से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा कीजिए :

- (a) फॉरवर्ड चार्ज के तहत वस्तुएँ और सेवाएँ
- (b) रिवर्स चार्ज के तहत वस्तुएँ और सेवाएँ।

6. M/s Vertical Ltd. has the following tax credits in its ledger. Calculate the eligible Input Tax Credit (ITC) for the month :

- (a) GST paid on a truck used for transport of raw materials : ₹ 4,80,000
- (b) GST paid on food and beverages for employees : ₹ 70,000
- (c) GST paid on inputs where the invoice is available but goods are not yet received : ₹ 2,40,000
- (d) GST paid on inputs used for making exempt supplies : ₹ 1,20,000
- (e) ITC on inputs where payment to the supplier was not made for 200 days : ₹ 80,000

M/s Vertical Ltd. के बहीखाते में निम्नलिखित टैक्स क्रेडिट हैं। महीने के लिए पात्र ITC (Eligible ITC) की गणना कीजिए :

- (a) कच्चे माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रक पर भुगतान किया गया जीएसटी : ₹ 4,80,000
- (b) कर्मचारियों के लिए भोजन और पेय पदार्थों पर भुगतान किया गया जीएसटी : ₹ 70,000
- (c) उन इनपुट्स पर भुगतान किया गया जीएसटी जहाँ चालान उपलब्ध है लेकिन माल अभी प्राप्त नहीं हुआ है : ₹ 2,40,000

(d) छूट प्राप्त वस्तुओं (exempt supplies) को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर भुगतान किया गया जीएसटी : ₹ 1,20,000

(e) उन इनपुट पर ITC जहाँ आपूर्तिकर्ता को 200 दिनों तक भुगतान नहीं किया गया था : ₹ 80,000

7. Explain the provisions of Schedule-I and Schedule-III under GST. Identify transactions treated as supply and those not treated as supply.

GST के अंतर्गत अनुसूची I और अनुसूची III के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उन लेन-देन की पहचान कीजिए जिन्हें 'Supply' माना जाता है और जिन्हें 'Supply' नहीं माना जाता।

8. Write short notes on (Attempt any three):-

(a) Composition Scheme

(b) Point of Taxation

(c) Related person under GST

(d) Scope of Supply

(e) ITC on capital Goods.

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (कोई भी तीन) :

(a) संरचना योजना

(b) कर निर्धारण का बिंदु

(c) जीएसटी के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति

(d) आपूर्ति का दायरा

(e) पूँजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट।